



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$1\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{3} =$$

$$1\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} =$$

$$3\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{2}{5} =$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$$

$$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{6} =$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} =$$

$$\frac{2}{9} \times \frac{4}{5} =$$

$$\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{3} =$$

$$\frac{6}{7} \times 1\frac{1}{4} =$$



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$1\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{3} = \frac{28}{15} = 1\frac{13}{15}$$

$$1\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{7}{16}$$

$$3\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{35}$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{6} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$$

$$\frac{2}{9} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{45}$$

$$\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{6}{7} \times 1\frac{1}{4} = \frac{15}{14} = 1\frac{1}{14}$$